

Day 9 - योग पर समाचार पत्र लेख (News Article on Yoga)

सैन डिएगो में अभिभावकों की शिकायत के बाद एक स्कूल के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में सिखाया जाने वाला योग गैरकानूनी है और इससे हिंदू धार्मिक विश्वास को बढ़ावा मिल रहा है। सैन डिएगो की विशेष अदालत से स्कूल में चलने वाले अष्टांग योग कार्यक्रम को जल्द से जल्द समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही इसकी जगह परंपरागत शारीरिक शिक्षा को शुरू कराने का निवेदन किया गया है। दूसरी ओर स्कूल के अधीक्षक इस कार्यक्रम को गैरकानूनी नहीं मानते। उनका कहना है कि इसके तहत किसी तरह का धार्मिक बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है।

अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है और स्कूल में पाठ्यक्रम के तहत योग सिखाने की इजाजत दे दी है। सैन डियागो सुपीरियर कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि स्कूल का योग कार्यक्रम किसी धर्म विशेष का समर्थन नहीं करता। याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधीश ने योग से भारत के जुड़ाव और दर्शन के बारे में बताते हुए अपने फैसले की लगभग दो घंटे तक व्याख्या की और योग का समर्थन किया। आजकल स्कूल के आधे घंटे के योग कार्यक्रम में छात्रों को प्राणायाम और आसन अभ्यास कराए जाते हैं।

वाद विवाद का विषय (Topic for debate)

क्या योग सचमुच हिन्दू धार्मिक विश्वास को बढ़ावा देता है? पक्ष या विपक्ष में अपना मत दें।
Kya yoga hindu dharmik vishwas ko badhava deta hai? For or against mein apana mat den.

Word meaning

अभिभावकों = Guardians, शिकायत = Complain, खिलाफ = Against, मुकदमा = court case, दायर किया गया है = Had been filed, आरोप = allegation, blame , गैरकानूनी = illegal, धार्मिक विश्वास = Religious faith, विशेष अदालत = Special court, अष्टांग योग = Aashtaang Yog, कार्यक्रम = program, अनुरोध = Request, परंपरागत = traditional, निवेदन = Request, अधीक्षक = Administrator , याचिका = Petition, खारिज = reject, पाठ्यक्रम = Syllabus, इजाजत = permission, न्यायाधीश = Judge, समर्थन = support , जुड़ाव = association, दर्शन = Philosophy, फैसले = Verdict , व्याख्या = explanation, प्राणायाम = breathing technique, आसन = yoga postures, अभ्यास = Practice